

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – पंचम

दिनांक 05-09-2020

विषय – हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

## सुप्रभात बच्चों आज पत्र -लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे।

पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है – ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुँचा सकता है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी माना जाता है। इससे अपनी बातों को लिखकर बहुत दूर तक पहुँचाया जा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है।

पत्रों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है-

(क) औपचारिक पत्र

(ख) अनौपचारिक पत्र

पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें-

जिन्हें पत्र लिखा गया हो	संबोधन	अभिवादन	समापन
-----------------------------	--------	---------	-------

अपने से बड़ों को	आदरणीय, पूजनीय,माननीय, मान्यवर	सादर प्रणाम, चरण स्पर्श	आपका पुत्र, आपका आज्ञाकारी, आपका अनुज, कृपाकांक्षी
अपने से छोटों को	प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान	शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, शुभाशीष	तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छु, शुभचिंतक
बराबर वालों को	प्रियबंधु, प्रिय मित्र,प्रिय सखी, प्रिय भाई/बहन	मधुर स्मृति, सप्रेम नमस्कार	अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा साथी

औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, संपादक या प्रधानाचार्य आदि को	मान्यवर, श्रीमान, महोदय, माननीय	मान्यवर, महोदय	प्रार्थी, निवेदक विनीत, भवदीय
--	------------------------------------	-------------------	-------------------------------------

सेवा में

प्रधानाचार्य महोदय

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ

लखीसराय

बिहार

विषय-दो दिन अवकाश के संबंध में।

महोदय सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की पंचम् 'ए' की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से वापस आने के बाद से मुझे बुखार आ गया और सिर में दर्द हो गया। डॉक्टर ने दवाएँ देकर दो दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 28 एवं 29 सितंबर 20xx तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि दो दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

आपकी आज्ञाकारी शिष्या

अंशु तिवारी

पंचम् 'ए' अनुक्रमांक-12

दिनांक

गृहकार्य

(1) अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपना सेक्शन बदलवाने के लिए प्रार्थना-पत्र लिखिए।